

101. निम्नलिखित में कौन एक सही है ?

- (1) प्रारंभिक खर्च का परिशोधन विधियों का उपयोग है।
- (2) उधार बिक्री कार्यशील पूँजी को बढ़ाता है।
- (3) स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद निधि का उपयोग है।
- (4) निधि प्रवाह विश्लेषण व्यवसाय अवधि की बंद तिथि की व्यवसाय की स्थिति दर्शाता है।

101. Which one is true ?

- (1) Amortisation of preliminary expenses is a use of funds.
- (2) Credit sales increases the working capital.
- (3) Purchase of stock-in-trade is an application of fund.
- (4) Funds flow analysis shows the position of business as on the closing date of business period.

102. निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

- (1) विकल्पों के बीच लागत में अंतर को संगत लागत कहा जाता है।
- (2) अंशदान मार्जिन को निवल आय के रूप में जाना जाता है।
- (3) सभी भविष्य लागतें संगत लागतें नहीं हैं।
- (4) विगत लागतें निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

102. Which one is true ?

- (1) Difference in costs between alternatives is termed as relevant cost
- (2) Contribution margin is also known as Net Income
- (3) All future costs are not relevant cost
- (4) Past costs are significant for decision making

103. निम्नलिखित में से कौन-सा गलत है ?

- (1) निजीकरण का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र की भूमिका को कम करना था।
- (2) अर्थतन्त्र: वैश्वीकृत अर्थतन्त्र में निर्यात और आयात के क्षेत्रों में मुक्त रूप से आवागमन होता है।
- (3) उदारगमन लाइसेंस-परमिट प्रणाली के अन्त

103. Which one is false ?

- (1) Privatisation aimed at reducing the role of the public sector.
- (2) A truly globalised economy implies free movement of people across borders.
- (3) Liberalisation signalled the end of

- (4) भारतीय उद्योग का उदारीकरण वस्तु और सेवाओं के संचालन पर प्रतिबंध समाप्त किए जाने के मामले में नहीं हुआ है।

- (4) Liberalisation of the Indian industry has not taken place with respect to removal of restrictions on the movement of goods and services.

104. विपणन कार्य में "सांद्रण" में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है ?

- (1) श्रेणीकरण
- (2) जोखिम वहनकरण
- (3) विभाजनकरण
- (4) भण्डारण

104. Which of the following is not involved in 'Concentration' in marketing function ?

- (1) Grading
- (2) Risking
- (3) Divisioning
- (4) Warehousing

105. आधुनिक समय में निम्नलिखित में से कौन-सा धनसंचयन विधि नहीं है ?

- (1) धनसंचयन विधि के लिए जाने के प्रतिफल का अनुपात
- (2) सटीक अभिलेख अनुरक्षण
- (3) लगाई गई पूँजी की कुल धनराशि
- (4) अलग-अलग परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटन

105. In modern times, a finance manager is not concerned with :

- (1) the measurement of results of each allocation of funds
- (2) accurate record keeping
- (3) the total amount of capital employed
- (4) the allocation of funds to different projects

106. लेखा विवरणों में आकस्मिक दायित्व के बारे में नोट संलग्न करने की प्रथा किसके अनुसरण में है ?

- (2) सामंजस्य की प्रथा
- (3) मुद्रा मापन अवधारणा
- (4) रुढ़िवाद की प्रथा

106. The practice of appending notes regarding contingent liabilities in accounting statements is in pursuance to :

- (2) Convention of consistency
- (3) Money measurement concept
- (4) Convention of conservatism

107. इस विचार से 'वैज्ञानिक प्रबंध' के किस सिद्धान्त को बल मिलता है ?

- (1) सहयोग न कि व्यक्तिपरकता
- (2) प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कार्यकुशलता और समृद्धि तक विकास
- (3) विज्ञान न कि परंपरागत नियम
- (4) सद्भाव न कि वैमनस्यता (इगड्ड)

108. एक्स और वाई 3:1 के अनुपात में लाभ और हानि को साझेदारी करने वाले साझेदार हैं। वे जेड को साझेदार के रूप में स्वीकार करते हैं जो ₹ 4,000 गुडविल शेयर के रूप में भुगतान करता है। नई लाभ की साझेदारी 2:1:1 के अनुपात में होगी। गुडविल की धनराशि जमा की जाएगी :

- (1) केवल एक्स
- (2) केवल वाई
- (3) एक्स और वाई को क्रमशः ₹ 3,000 और ₹ 1,000
- (4) एक्स और वाई को क्रमशः ₹ 1,000 और ₹ 3,000

109. जब लाभों में से अलग-अलग हिस्से निकाले जाते हैं तो उनकी ही राशि निम्नलिखित में A किसमें भविष्य की जाती है :

- (1) पूंजी भंडार
- (2) लाभ हानि प्रारब्धता खाता
- (3) सामान्य भंडार

the employees." Which of the 'Scientific Management' principles supports this view ?

- (1) Cooperation, not individualism
- (2) Development of each and every person to his/her greatest efficiency and prosperity
- (3) Science, not rule of thumb
- (4) Harmony, not discord

108. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. They admit Z as a partner who pays ₹ 4,000 as his share of goodwill. The new profit sharing will be 2:1:1. The amount of goodwill will be credited to :

- (1) X only
- (2) Y only
- (3) X and Y as ₹ 1,000 and ₹ 1,000 respectively
- (4) X and Y as ₹ 1,000 and ₹ 3,000 respectively

109. When debentures are redeemed out of profits, an equal amount is to be transferred to :

- (1) Capital reserve
- (2) Profit and Loss appropriation account
- (3) General Reserve

दृष्टिकोण के साथ एकीकरण करने का प्रयत्न किया ?

- (1) हेरी हैसेन
- (2) कोपलैंड
- (3) एफ.ई. क्लार्क
- (4) फिलिप कोटलर

111. निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ?

- (1) स्थायित्व रणनीति को संसाधनों को एकत्रित करने का एक तरीका है जो संसाधनों को अधिक प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में ला सकता है।
- (2) ऐसी प्रत्यक्ष रणनीति जो संसाधनों को और अधिक उत्पादी बनाने में विफल रहती है - "अतिरिक्त फैट" है।
- (3) स्थायित्व रणनीति के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए पेटेंट रोककर घातक कदम उठाया जा सकता है।
- (4) लाभ बढ़ाने के लिए स्थायित्व रणनीति का अधिकतम तैयार किया जा सकता है।

112. सौंपे गए कार्य को भलीभांति निष्पादित करने संबंधी अधीनस्थकर्मों का कर्तव्य को कहा जाता है :

- (1) जवाबदारी
- (2) उत्तरदायित्व
- (3) प्राधिकार का प्रत्यापन
- (4) प्राधिकार

Consumer traditional marketing

(1) Hersey

(2) Copland

(3) F.E. Clark

(4) Philip Kotlar

111. Which one is false ?

- (1) One of the reasons for pursuing stability strategy is the thinking that too much expansion can lead to inefficiencies.
- (2) Expansion strategy which fails to make resources more productive is "excess fat".
- (3) A stability strategy may lead to offensive move by obtaining a patent to reduce competition.
- (4) The stability strategy can be designed to increase profits.

112. The obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty is known as :

- (1) Accountability
- (2) Responsibility
- (3) Delegation of authority
- (4) Authority

- (1) परिपक्वता
- (2) ह्रस्व
- (3) परिचय
- (4) विकास

114. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम किस वर्ष बनाया गया ?

- (1) 1934
- (2) 1956
- (3) 1949
- (4) 1947

115. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा उपभोक्ताओं को निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार नहीं दिया गया है ?

- (1) सुरक्षा का अधिकार
- (2) शिकायत निवारण का अधिकार
- (3) सूचना प्राप्ति का अधिकार
- (4) अनुशासन का अधिकार

116. एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ₹ 10,00,000 में एक ट्रक खरीदा। कंपनी का अनुमान है कि ट्रक 10 वर्षों की समयवधि में 1,00,000 किलोमीटर चलाया जाएगा। अनुमानित अवशेष मूल्य ₹ 12,00,000 है। 2015 में ट्रक 15,000 किलोमीटर चलाया गया। 2015 के लिए निम्नलिखित में किस्म वस्तुओं के परिणामस्वरूप

- (1) दोहरी कृषान श्रवणं
- (2) वार्षिक अन्न के पत्र पत्र
- (3) पटल मूल्य पटल
- (4) सीधी रेखा पटल

- ✓(4) Maturity
(2) Decline
(3) Introduction
✗(4) Growth

114. The RBI Act was enacted in which year ?

- | | |
|------|------|
| (1) | 1934 |
| (2) | 1956 |
| ✓(3) | 1949 |
| (4) | 1947 |

115. Which of the following right is not provided by the Consumer Protection Act, 1986 to the consumers ?

- (1) Right to safety
- (2) Right to seek redressal
- (3) Right to be informed
- (4) Right to due redress

116. A transport company purchased a delivery truck for ₹ 60,00,000. The company estimates that the truck will be driven 1,00,000 km over its 10 years useful life. The estimated salvage value is ₹ 12,00,000. The truck was driven 15,000 km in 2015.

- (1) Double decline balance
- (2) Sum of the years digits
- (3) Written down value method
- (4) Straight line method

निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ उच्चतम गुणवत्ता का बहुत अधिक उपयोगी है?

- (1) महत्त्वपूर्ण घटना पद्धति
- (2) चित्रीय मापन माप
- (3) युग्मित तुलना
- (4) बलात् विकल्प पद्धति

118. आरंभिक 20 वर्षों में प्रतिवर्ष 31,000 प्रतिशत वृद्धि, 30,00,000 प्रतिशत वृद्धि, 25 प्रतिशत वृद्धि

- (2) गुणा
छ: गुणा
(4) सात गुणा

119. जब सुरक्षा ढाँचा 20 प्रतिशत है और पी/वी अनुपात 60 प्रतिशत है, तो लाभ का अनुपात होगा :

- | | |
|-----|-----|
| (1) | 22% |
| (2) | 12% |
| (3) | 30% |
| (4) | 33% |

120. मैरी पार्कर फोलेट के अनुसार समन्वय स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक सिद्धान्त समझाया

- (1) निरंतरता
- (2) प्रत्यक्ष सम्पर्क
- (3) परस्परता
- (4) उपर्युक्त सभी

can be useful in the future.

the *in situ* method

Grading scale

Validation and comparison

4) Forced choice method

118. Opening stock was ₹ 29,000; Closing stock was ₹ 31,000. Sales amounted to ₹ 3,00,000. Gross profit was 25% on cost. What was the Inventory Turnover Ratio?

- (1) 8 times
- (2) 5 times
- (3) 6 times
- (4) 7 times

119. When margin of safety is 20% and P/V ratio is 60%, the profit will be : 33

- | | |
|-----|-----|
| (1) | 22% |
| (2) | 12% |
| (3) | 30% |
| (4) | 33% |

120. According to Mary Parker Follet which one of the following principles is important for

- (1) Continuity
- (2) Direct Contact
- (3) Reciprocity
- (4) All of the above

- (1) पी.बी.टी.
बकता अंशों की संख्या
- (2) पी.ए.टी.
बकता अंशों की संख्या
- (3) लाभोश
बकता साधारण शेयर की संख्या
- (4) डी.पी.एस.
प्रति अंश का बाजार मूल्य

122. डगलस एमसीग्रेगर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त "वाई" के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी पूर्वधारणा सही नहीं है?

- (1) औसत व्यक्ति स्वोक्तकरण मानना चाहता है और यहाँ तक कि अनियंत्रित को भी योग्य बन सकता है।
- (2) अधिकतर विजय करने की अभिलाषा व्यापक रूप में प्रथममह में फैली हुई है।

- (3) कर्मचारी कार्य को उत्तम ही स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं जैसे कि भरण या श्रमिक को।
- (4) जब कभी भी संभव हो कर्मचारी औपचारिक निर्देश को योग्य करेंगे।

- (1) PBT
No. of shares outstanding
- (2) PAT
No. of shares outstanding
- (3) Dividend
No. of ordinary shares outstanding
- (4) DPS
Market Value Per Share

122. According to theory "Y", labeled by Douglas McGregor, which assumption is not correct?

- (1) The average person can learn to accept, even seek, responsibility.
- (2) The ability to make innovative decisions is widely dispersed throughout the population.

- (3) Employees can view work as being as natural as rest or play.
- (4) Employees will seek formal direction whenever possible.

करना है।

- (2) अधिकांश प्रतिष्ठान विक्रय की संकल्पना को उस समय व्यवहार में अपनाते हैं जब उनकी पूरी क्षमता का दोहन हो गया हो।
- (3) बाजार का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ क्रेता और विक्रेता अपनी वस्तुओं के विनिमय के लिए एकत्रित होते हैं।
- (4) बाजार में सभी उत्पादों के सभी वास्तविक और संभावित क्रेता शामिल होते हैं।

123. म्यूचुअल फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है?

- (1) न्यास
- (2) संयुक्त स्टॉक कंपनी
- (3) साझेदार प्रतिष्ठान
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

125. किसी अभिवृत्ति के भावनात्मक अथवा भावात्मक पक्ष को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है?

- (1) संज्ञात्मक घटक
- (2) संज्ञात्मक असंगति
- (3) भावात्मक घटक
- (4) व्यवहारपरक घटक

- (2) Most firms use a full commission system for selling their products.
- (3) A market stands for the place where buyers and sellers gather to exchange their goods.
- (4) A market is the set of all actual and potential buyers of a product or service.

124. A mutual fund is to be set up in the form of a:

- (1) Trust
- (2) Joint Stock Company
- (3) Partnership Firm
- (4) None of the above

125. The emotional or feeling segment of an attitude is known as:

- (2) Cognitive dissonance
- (3) Affective component
- (4) Behavioural component

प्रक्रियाओं अवश्य की जाने चाहिए।

- (2) किसी संयुक्त उद्यम की सीमित अवधि तक अस्तित्व में रहने से संबंधित है।
- (3) इसमें कंपनियों की क्रमबद्ध समीक्षाएं के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने का सुझाव दिया जाता है, भले ही कंपनी का प्रचालनात्मक चक्र अपूर्ण हो।
- (4) जब सभी प्रचालनात्मक चक्र पूरे हो जाएं, कंपनियों को कालिक आधारित वित्तीय विवरण तैयार करने का सुझाव देता है।

127. व्यावसायिक सूचना प्रणाली

- (1) उत्पादन और वितरण प्रणाली तक सीमित है।
- (2) किसी प्रकारात्मक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है।
- (3) वित्तीय कार्य तक सीमित है।
- (4) उपयुक्त में से कोई नहीं

128. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सेवा नहीं है?

- (1) किसी वैयक्तिक सेवा सौंपदा के अंतर्गत निम्न सेवा का प्रावधान
- (2) समाचार के प्रबंधन में संबंधित सुविधाओं का

(3) बाजार से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान

(4) निवास से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान

statements are prepared periodically.

- (2) Refers to the limited life of a joint venture.
- (3) Suggest the companies to prepare financial statements on the basis of a systematic time interval even though the operating cycle(s) of the entity may be incomplete.
- (4) Suggest companies to prepare financial statements on a periodic basis, when all operating cycles are complete.

127. The Business information systems are

- (1) Restricted to production and sales systems
- (2) Not restricted to any particular functional area
- (3) Restricted to finance management
- (4) None of the above

128. According to the Consumer Protection Act, 1986, which one is not a 'Service'?

- (1) Provision of any service under a contract of personal service.
- (2) Provision of facilities in connection

(3) Provision of facilities in connection with banking.

(4) Provision of facilities in connection with lodging.

निम्नलिखित में से किसके आधार है?

- (1) असीमित शक्ति
- (2) प्रचालनात्मक शक्ति
- (3) परिलक्षित शक्ति
- (4) विरोधक शक्ति

130. एक स्वामी ने 1.02 लाख रुपये का निवेश किया। वर्ष के दौरान वह 15,000 रुपये का निवेश और 6,000 रुपये का वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए 13,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में स्वामी की शक्ति का अंश क्या होगा?

- (1) ₹ 93,000
- (2) ₹ 89,000
- (3) ₹ 80,000
- (4) ₹ 96,000

131. निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन कार्य का घटक है?

- (2) समस्या समाधान
- (3) अधीनस्थकर्मियों का पर्यवेक्षण
- (4) प्रशिक्षण और विकास

sharing are the bases of

- (1) Coercive power
- (2) Referent power
- (3) Expert power

130. The ending balance of owner's equity is ₹ 1,02,000. During the year the owner contributed ₹ 15,000 and withdrew ₹ 6,000. If the firm had a net income of ₹ 13,000 for the year, what was the beginning owner's equity?

- (1) ₹ 93,000
- (2) ₹ 89,000
- (3) ₹ 80,000
- (4) ₹ 96,000

131. Which of the following is a component in the function of direction?

- (2) Problem solving
- (3) Supervising the subordinates
- (4) Training and development

- (2) प्रमाण विचार उपरिख्य बजटीय उत्पादन पर आधारित होता है।
- (3) प्रमाणों का प्रयोग योजना और समन्वय उद्देश्यों के लिए होता है।
- (4) उपरिख्य प्रमाणों को सामग्री और श्रम मानकों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाता है।

133. निम्नलिखित में से कौन-सा एक गलत है?

- (1) विक्रय विभाग फैक्टरी उपरिख्य विचलन के लिए उत्तरदायी है।
- (2) लागत विचलन को अनुकूल माना जाता है यदि मानक लागत वास्तविक लागत से अधिक है।
- (3) क्षमता विचलन और दक्षता विचलन का जोड़ मात्र विचलन के बराबर होता है।
- (4) खरीद विभाग को सामग्री मूल्य विचलन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

134. नकदी से माल खरीदने से :

- (1) चालू अनुपात में वृद्धि होगी।
- (2) सकल लाभ प्रतिशत में कमी होगी।
- (3) सकल लाभ प्रतिशत में वृद्धि होगी।
- (4) चालू अनुपात में कोई प्रभाव नहीं होगा।

Set on the basis of motion and time studies.

- (2) Standard fixed overhead rate is based on budgeted output.
- (3) Standards are used for planning and coordination purposes.
- (4) Overhead standards are set like material and labour standards.

133. Which one is false ?

- (1) The selling department is responsible for factory overhead volume variance.
- (2) A cost variance is said to be favourable if the standard cost is more than the actual cost.
- (3) The total of capacity variance and efficiency variance is equal to volume variance.
- (4) The purchase department should be held responsible for material price variance.

134. Buying goods for cash would :

- (1) increase the current ratio
- (2) decrease the gross profit percentage
- (3) increase the gross profit percentage
- (4) have no effect on current ratio

है ?

- (1) 1988
- (2) 1998
- (3) 2000
- (4) 1987

136. कम्पनी नियमों के उपबंधों के अनुसार एक प्रा. लि. कंपनी में अधिकतम _____ सदस्य हो सकते हैं।

- (1) 100
- (2) 200
- (3) 20
- (4) 50

137. क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और यादृच्छिक गुट निम्नलिखित में से किसके भाग हैं ?

- (1) औपचारिक समूह
- (2) घनिष्ठ समूह
- (3) प्रमुख समूह
- (4) अनौपचारिक समूह

- (1) 1988
- (2) 1998
- (3) 2000
- (4) 1987

136. A private limited company can have maximum _____ members as per the provisions of the Companies Act, 2013.

- (1) 100
- (2) 200
- (3) 20
- (4) 50

137. Horizontal, Vertical and Random cliques are parts of :

- (1) Formal groups
- (2) Closed groups
- (3) Core groups
- (4) Informal groups

- (2) चैनल वह माध्यम है जिससे होकर संवाद की यात्रा होती है।
- (3) संचार में अनिवार्यतः अर्थ का सम्प्रेषण और उसकी समझ होना चाहिए।
- (4) संचार से किसी समूह या संगठन के भीतर चार प्रमुख प्रयोजन सिद्ध होते हैं: नियंत्रण, अभिप्रेरण, भावनात्मक अभिव्यक्ति और सूचना।

- (2) The channel is the medium through which the message travels.
- (3) Communication must include both the transference and the understanding of meaning.
- (4) Communication serves four major functions within a group or organization: control, motivation, emotional expression, and information.

139. परिवर्तन लागत निम्न में किसके योग के बराबर होती है?

- (1) प्रत्यक्ष मजदूरी और फैक्टरी उपरिचय
- (2) सामग्री लागत और फैक्टरी उपरिचय
- (3) सामग्री लागत और प्रत्यक्ष मजदूरी
- (4) सामग्री लागत और अप्रत्यक्ष मजदूरी

139. Conversion cost is equal to total of:

- (1) direct wages and factory overhead
- (2) material cost and factory overhead
- (3) material cost and direct wages
- (4) material cost and indirect wages

140. 'घी और थेयर' मॉडल के अनुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता को पहचानने के लिए निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित है?

140. According to 'Ghee and Thayer' model for identifying training needs, which of the following is required?

- (2) कार्य विश्लेषण
- (3) मानव विश्लेषण
- (4) उपर्युक्त सभी

- (2) Task analysis
- (3) Man analysis
- (4) All of the above

का उपयोग करते हैं।

- (2) एक फर्म जितना अधिक स्टॉक संरक्षा रखेगी, माल सूची में स्टॉक की सम्भावना बढ़ जाएगी।
- (3) बिंदु जिस पर ऑर्डर लागत और आयवी लागत चक्र के दृष्टान्त समान होते हैं लेकिन उल्टी दिशा के होते हैं, EOQ का निर्धारण करते हैं।
- (4) एक व्यवसाय चक्र में कुल कार्यशील पूँजी के दृष्टान्त माल सूची के दृष्टान्त के समान होता है।

- (2) Larger the stock a firm keeps, greater the probability of stock out situation on average.
- (3) The point at which the slopes of ordering costs and carrying costs curves are equal but of opposite direction, determines the EOQ.
- (4) Inventory in relation to total working capital has similar proportions over a business cycle.

142. निम्न में से कौन-सा एक गलत कथन है?

142. Which one does not affect the choice of capital structure?

- (1) ऋण समता पूँजी अनुपात
- (2) समता पूँजी की लागत
- (3) रोकड़ प्रवाह स्थिति
- (4) ऋण सेवा आवरण अनुपात

- (1) Debt - Equity Ratio
- (2) Cost of Equity
- (3) Cash flow position
- (4) Debt Service Coverage Ratio

143. निम्नलिखित में से कौन-सा एक गलत कथन है?

- (1) औसत ऋण वसूली की अवधि में वृद्धि होने से कार्यशील पूँजी की आवश्यकता कम हो जाती है।
- (2) मुद्रास्फीति बढ़ने के समय के दौरान कार्यशील पूँजी की आवश्यकता बढ़ती है।
- (3) किसी प्रतिष्ठान की निवल कार्यशील पूँजी इसकी वर्तमान आस्तियों का वह अंश है जिसका

143. Which one is a false statement?

- (1) An increase in average debt-collection period lowers the requirements of working capital
- (2) Working capital requirements increase during the period of increasing inflation.
- (3) Net working capital of a firm is that portion of its current assets which is

है।

- (4) प्रचालन चक्र की अवधि जितनी लंबी होगी, कार्यशील पूँजी की राशि भी उतनी ही अधिक होगी।

- (4) Longer the duration of operating cycle, larger is the amount of working capital requirements

- (1) सीमित दायित्व
- (2) गभित एजेंसी
- (3) अत्यधिक सद्भाव
- (4) व्याज के अंतरण पर प्रतिबंध

- (1) Limited liability
- (2) Implied agency
- (3) Utmost good faith
- (4) Restriction on transfer of interest

145. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (1) सेवानिवृत्त होनेवाला साझेदार उसके लेखाओं का निपटान नहीं होने की स्थिति में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी प्रतिष्ठान में अपने लाभ के शेयर का दावा कर सकता है।
- (2) प्रसुप्त साझेदार को अपने अवकाश प्राप्त करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती है।
- (3) ज्ञापन पुनः मूल्यांकन खाता खोले जाने पर परिसंपत्तियाँ और देयताएँ संशोधित मूल्य पर नए आर्थिक चिट्ठे में अंकित होते हैं।
- (4) सभी संग्रहित लाभ और आरक्षितियाँ नए हिस्सेदार के प्रवेश होने पर लाभ और हानि समायोजन खाता में अंतरण किए जाते हैं।

145. Which one is true ?

- (1) The retiring partner may claim a share in the profits of the firm even after his retirement if his accounts are not settled.
- (2) A dormant partner has to give public notice of his retirement.
- (3) In case Memorandum Revaluation of account is opened, the assets and liabilities appear in the New Balance Sheet at their revised values.
- (4) All accumulated profits and reserves are to be transferred to the Profit and Loss Adjustment Account on admission of a new partner.

146. निम्नलिखित में से कौन-सा एकल स्वामित्व का विशेष नहीं है ?

- (2) एक व्यक्ति का नियंत्रण
- (3) सीमित दायित्व
- (4) अविभक्त जोखिम

146. Which of the following is not a feature of Sole Proprietorship ?

- (2) One man control
- (3) Limited Liability
- (4) Undivided risk

- (1) कार्य का इकाई के अनुसार कामगारों को माजबूती प्रदान करती है।
- (2) इसका नियोजता-कर्मचारी के संबंध पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- (3) इससे कर्मचारी असुरक्षित महसूस करते हैं।
- (4) उत्पादन की मात्रा पर कम बल दिया जाता है।

- (2) नियोजता-कर्मचारी के संबंध पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- (3) इससे कर्मचारी असुरक्षित महसूस करते हैं।
- (4) उत्पादन की मात्रा पर कम बल दिया जाता है।

148. किसी भी प्रतिष्ठान के निर्यात के सम्बन्ध में साझेदार को सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती है।

- (1) निर्यात के सम्बन्ध में साझेदार को सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती है।
- (2) निर्यात के सम्बन्ध में साझेदार को सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती है।
- (3) निर्यात के सम्बन्ध में साझेदार को सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती है।
- (4) निर्यात के सम्बन्ध में साझेदार को सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती है।

149. जिला मंच, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष शिकायत दायर करने की समय सीमा है :

- (1) कार्य के घटित होने की तारीख से एक वर्ष
- (2) कार्य के घटित होने की तारीख से दो वर्ष
- (3) कार्य के घटित होने की तारीख से तीन माह
- (4) कार्य के घटित होने की तारीख से छः माह

148. Which of the following rights usually not available to a partner consequent to the dissolution of a firm ?

- (1) Right to return of premium on premature winding up
- (2) Right to be consulted
- (3) Right to restrain any partner or his representatives from the use of firm name or property
- (4) Right of equitable distribution of firm's property

149. The time limit for filing a complaint before the District Forum, the State Commission or the National Commission, as the case may be, is :

- (1) One year from the date on which the cause of action arises
- (2) Two years from the date on which the cause of action arises
- (3) 3 months from the date on which the cause of action arises
- (4) 6 months from the date on which the cause of action arises

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 5
- (4) 4

151. यदि किसी अभ्यर्थी से पूर्व साधारण आवेदक हो तो उसका अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल मूल्यांकन हो सकता है और इसके विरोधतः यदि उसके पूर्व सशक्त आवेदक हों तो उसका अपेक्षाकृत कम अनुकूल मूल्यांकन होने की संभावना होती है। इस प्रक्रम को क्या संज्ञा दी जाती है?

- (1) परंपरागत पद्धति अपनाया जाना
- (2) विरोधाभासी प्रभाव
- (3) चयनात्मक अवबोध
- (4) प्रभामंडल प्रभाव

152. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (1) लाभांश को अदायगी धनराशि का उपयोग है।

- (3) व्यापार में स्टॉक का क्रय निधि का उपयोग है।
- (4) निधि-प्रवाह का तात्पर्य दीर्घावधिक निधि में परिवर्तन से है।

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 5
- (4) 4

151. A candidate is likely to receive a more favourable evaluation if preceded by mediocre applicants and a less favourable evaluation if preceded by strong applicants. This phenomenon is known as :

- (1) Stereotyping
- (2) Contrast effect
- (3) Selective Perception
- (4) Halo effect

152. Which one is true?

- (1) Payment of dividends is a use of funds

- (3) Purchase of stock-in-trade is an application of fund
- (4) Funds flow refers to change in long-term funds

- (1) विशाखा रिफाइनरी
- (2) कोचिन रिफाइनरी
- (3) रिलायंस रिफाइनरी
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

154. बेमेल विकल्प चुनिए :

- (1) निष्ठा - विचार
- (2) प्रयत्न - विस्तार
- (3) प्रभाव - विस्तार
- (4) नियंत्रण - विस्तार

155. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

- (1) खरीदने की प्रक्रिया आवश्यकता की पहचान से आरंभ होती है।
- (2) उपभोक्ता वैविध्य खरीद-व्यवहार ऐसी स्थिति में प्रदर्शित करता है जब उपभोक्ता की संलिप्तता कम होती है किन्तु उनमें अलग-अलग ब्रांड में बहुत अधिक अन्तर दिखाई देता है।
- (3) असंगति कम करने वाला क्रय-व्यवहार तब होता

क्रय से बहुत अधिक जुड़ हात है और अलग-अलग ब्रांड में व्यापक अंतर पाते हैं।

- (4) आदतन खरीद का व्यवहार ऐसी दशा में उत्पन्न होता है जब उपभोक्ता की संलिप्तता कम होती है।

- (1) Visakha Refineries
- (2) Cochin Refineries
- (3) Reliance Refineries
- (4) None of the above

154. Identify the odd one out :

- (1) Span of direction
- (2) Span of supervision
- (3) Span of authority
- (4) Span of control

155. Which one is false statement?

- (1) The buying process starts with need recognition.
- (2) Consumers undertake variety seeking buying behaviour in situations characterized by low consumer involvement but significant perceived brand differences.
- (3) Dissonance - reducing buying

are highly involved with an expensive or risky purchase and see significant difference among brands.

- (4) Habitual buying behaviour occurs under conditions of low consumer involvement.

156. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (1) कार्य-अध्ययन तकनीक में धक्कान-अध्ययन शामिल नहीं है।
- (2) टेलर ने योजना और कार्यान्वयन प्रकार्य के संयोजन की वकालत की थी।
- (3) कार्यकुशलता किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रभावी निपटारा और अपेक्षित निपटारा का अनुपात है।
- (4) कार्य-अध्ययन तकनीक में गत्यात्मक अध्ययन शामिल नहीं है।

157. कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों की वापसी खरीद निम्नलिखित में से किससे नहीं की जा सकती है ?

- (1) अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से प्राप्त आय
- (2) एक समान शेयर अथवा एक समान अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का पूर्व में निर्गमन
- (3) इसकी मुक्त संघव
- (4) प्रतिभूति प्रीमियम भुगतान

158. "बिल पर धन अब तक नहीं आया है, बिल" को किसी कंपनी के अकाउंट में किस शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाएगा ?

- (2) अपरिशोधित व्यय
- (3) चालू देयता
- (4) चालू आस्ति

156. Which one is true ?

- (1) Work-study techniques do not include fatigue study.
- (2) Taylor advocated mix of planning and execution functions.
- (3) Efficiency is the ratio of effective output to the input required to achieve it.
- (4) Work-study techniques do not include motion study.

157. Buy back of securities cannot be made out by a company out of :

- (1) the proceeds of other specified securities
- (2) an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified securities
- (3) its free reserves
- (4) the securities premium account

158. Under which heading the item, 'Bills Discounted but not yet matured' will be shown in the Balance Sheet of a Company ?

- (1) Contingent Liabilities
- (2) Unamortized Expenditure
- (3) Current Liability
- (4) Current Assets

159. निम्नलिखित में से कौन-सा बैंकों को गैर-निधिपोषित व्यवसाय नहीं है ?

- (1) षट्टा देने के लिए अनुपयोगी कंपनियों की स्थापना
- (2) बीमा व्यवसाय करने के लिए अनुपयोगी कंपनियों की स्थापना
- (3) आवृत्ति जमा राशि स्वीकार करना
- (4) म्युचुअल फंड अनुपयोगी कंपनियों की स्थापना

160. सूची - I में सूची - II से मिलान कीजिए और सही कोड चुनिए :

- | सूची - I | सूची - II |
|--------------------------|------------------------|
| (a) शीर्ष प्रबंधन | (i) तकनीकी कौशल |
| (b) मध्यवर्गीय प्रबंधन | (ii) मानव कौशल |
| (c) प्रचालनात्मक प्रबंधन | (iii) अवधारणात्मक कौशल |

कोड :

- (a) (b) (c)

- (2) (iii) (ii) (i)
(3) (i) (ii) (iii)
(4) (ii) (iii) (i)

159. Which of the following is not a non-funded business of Banks ?

- (1) Setting up subsidiary companies to do leasing
- (2) Setting up subsidiary companies to do insurance
- (3) Accepting Recurring deposits
- (4) Setting up mutual fund subsidiaries

160. Match items in List - I with those in List - II and choose the correct code :

- | List - I | List - II |
|----------------------------|------------------------|
| (a) Top management | (i) Technical skill |
| (b) Middle management | (ii) Human skill |
| (c) Operational management | (iii) Conceptual skill |

Codes :

- (a) (b) (c)

- (2) (iii) (ii) (i)
(3) (i) (ii) (iii)
(4) (ii) (iii) (i)

अनुपात लगाया गया। यदि कंपनी अपने दूर तक कम पदार्थ से 20 प्रतिशत की दर से मूल्यवर्धन प्रभावित करती है तो दूसरे वर्ष 31 मार्च, 2017 को मूल्यवर्धन की प्रभावित की जानेवाली भनदारी होगी।

- (1) ₹ 90,000
- (2) ₹ 1,00,000
- (3) ₹ 72,000
- (4) ₹ 80,000

162. आक्रामक वित्तीय रणनीति तब होती है जब:

- (1) दीर्घ-कालिक निधि दीर्घ-कालिक स्रोतों से जुड़ा जाती है।
- (2) वित्तीय निर्णय स्वतःस्फूर्त होते हैं।
- (3) अल्प-कालिक निधि का एक भाग दीर्घ-कालिक स्रोतों से जुड़ा जाता है।
- (4) दीर्घ-कालिक निधि का एक भाग अल्प-कालिक स्रोतों से जुड़ा जाता है।

163. निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक उद्योग माना जाता है?

- (1) मिश्रित का विनिर्माण
- (2) तेल प्रोधक उद्योग
- (3) खनिज अयस्क
- (4) इस्पात का विनिर्माण

in years and estimated salvage value of ₹ 50,000. If the company charges depreciation @ 20% by diminishing balance method, amount of depreciation to be charged in 2nd year, i.e. on 31st March, 2017 shall be:

- (1) ₹ 90,000
- (2) ₹ 1,00,000
- (3) ₹ 72,000
- (4) ₹ 80,000

162. An aggressive financing strategy is one where:

- (1) long-term funds are raised from long-term sources.
- (2) financing decisions are spontaneous.
- (3) a portion of short-term funds is raised from long-term sources.
- (4) a portion of long-term funds is raised from short-term sources.

163. Which one of the following belongs to Primary industry?

- (1) Manufacturing of cement
- (2) Oil refining industry
- (3) Mining ore
- (4) Manufacture of steel

- (1) प्रारंभिक व्यय का अपलेखन
- (2) विहापन व्यय का अपलेखन
- (3) खर्चा का अपलेखन
- (4) अवशेष सम्पत्तियों का क्रय

165. अभिकथन (A):

रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन के संकेतक में है जबकि गह विवरण लेखांकन के संकेतक में है।
जहाँ (A) सही है और (R) गलत है।
जहाँ (A) सही है और (R) गलत है।
जहाँ (A) सही है और (R) गलत है।
जहाँ (A) सही है और (R) गलत है।

गह विकल्प चुनिए:

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं किन्तु (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।
- (3) (A) सही है किन्तु (R) गलत है।
- (4) (A) गलत है किन्तु (R) सही है।

166. संयुक्त स्टॉक कंपनी का संबंधक निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा?

- (1) प्रविवरण में उल्लिखित विषयों का अनुपालन
- (2) नई अभियान अपेक्षाओं की पूर्ति के बिना कंपनी द्वारा व्यवसाय शुरू किया जाना
- (3) प्रविवरण में असत्य कथन
- (4) प्रविवरण में कथित विषयों का गैर-अनुपालन

- (1) प्रारंभिक व्यय का अपलेखन
- (2) विहापन व्यय का अपलेखन
- (3) खर्चा का अपलेखन
- (4) अवशेष सम्पत्तियों का क्रय

165. Assertion (A):

Cash flow statement is based on cash basis of accounting, while Funds flow statement is based on accrual basis of accounting.

Reason (R):

Cash flow statement is based on a narrower concept of funds but Funds flow statement is based on wider concept of funds.

Select the correct code:

- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).
- (2) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
- (3) (A) is correct but (R) is wrong.
- (4) (A) is wrong but (R) is correct.

166. Promoter of a Joint Stock Company shall not be liable for:

- (1) Compliance of matters to be stated in the Prospectus
- (2) Commencement of business by the company without confirming to capital subscription requirements
- (3) Misstatement in the Prospectus
- (4) Non-compliance of matters to be stated in the Prospectus

- (2) दीर्घावधिक दायित्व
- (3) आकस्मिक दायित्व
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

168. निम्नलिखित में कौन सही है ?

- (1) लागत का पता लगाने में अक्सर लागत सहायता करती है।
- (2) परिवर्तन लागत प्रत्यक्ष सामग्री लागत और प्रत्यक्ष मजदूरी लागत का कुल योग होती है।
- (3) संयुद्ध लागत एक प्रकार की विभेदात्मक लागत है।
- (4) परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई, उत्पादन की मात्रा के अनुसार बदलती रहती है।

169. परिवर्तनशील उपरिस्थान और आधुनिक लागत के योग को किस रूप में जाना जाता है ?

- (1) पूर्ण लागत
- (2) विभेदित लागत
- (3) अनुमान लागत
- (4) मर्यादित लागत

- (2) Long term liability
- (3) Contingent liability
- (4) None of the above

168. Which one is true ?

- (1) Opportunity cost helps in ascertainment of cost.
- (2) Conversion cost is the sum total of direct material cost and direct wages cost.
- (3) Incremental cost is a type of differential cost.
- (4) Variable cost per unit fluctuates with the volume of production.

169. Prime cost is also known as :

- (1) Full cost
- (2) Direct cost
- (3) Production cost
- (4) Marginal cost

170. Identify the odd one out.

- (1) Petty cash book
- (2) Cash book
- (3) Float
- (4) Imprest

संगठन में विभिन्न पदों पर काम करने वाले कर्मियों को मिलने वाले वेतन को वेतन नीति कहते हैं। वेतन नीति का अर्थ है वेतन देने की अवधि के दौरान उसके द्वारा संगठन में दी गई प्रत्याशित सेवा द्वारा अवधारित होता है।

- (1) जैंगो और लौ मॉडल
- (2) मोर्स नेट बेनेफिट मॉडल
- (3) लेव और श्वार्ट्ज मॉडल
- (4) फ्लामहोल्त्स मॉडल

171. कौन सा सही है ?

- (1) किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति होने की दशा में, यदि संयुक्त जीवन बीमा अभ्यर्पित करने के मूल्य में प्रतीत होता है तो कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है।
- (2) जब किसी ऐसी रकम के लिए ख्याति उत्पन्न होता है जो इसके मर्यादित मूल्य से अधिक है तो किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति की दशा में अंतर को सभी साझेदार के पूँजीगत खाते में जमा की जाएगी।
- (3) जब बहियों में ख्याति प्रतीत नहीं हो, जब तक अन्यथा सहमत नहीं हो, जारी रहने वाले साझेदारों को बढ़ते हुए अनुपात में जमा करके ख्याति बढ़ाया जाता है।

- (4) किसी साझेदार का निधन अथवा पोलिसी की परिपक्वता दोनों में से जो भी बाद में हो, की दशा में, संयुक्त जीवन बीमा परिपक्व हो जाता है।

services he is likely to be able to provide to the organization in various ways. The service states

- (1) Jago and Lau Model
- (2) Morse Net Benefit Model
- (3) Lev and Schwartz Model
- (4) Flamholtz Model

172. Which one is true ?

- (1) In the event of retirement of a partner, if the Joint Life Policy already appears at its surrender value, no further adjustment is required.
- (2) When goodwill appears at an amount which is more than its agreed value, the difference can be credited to all partners' capital accounts in the case of retirement of a partner.
- (3) When goodwill does not appear in the books, goodwill is raised by crediting continuing partners in the gaining ratio unless agreed otherwise.

- (4) Joint Life Policy becomes due in the event of death of any of the partners or on the maturity of policy, whichever is later.

- (2) जनसंख्या की आयु-वर्ग संरचना में परिवर्तन होने से रणनीति में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती।
- (3) औद्योगिक और/अथवा संस्थानिक क्रेताओं को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक संबंधनकारी और सौदाकारी सहयोग है।
- (4) आपूर्तिकर्ता की शक्ति सर्वाधिक होती है जब आपूर्तिकर्ता अपने के माध्यम से एकीकृत हो सकता है।

- (2) Change in the agewise composition of population does not necessitate change in strategy.
- (3) One of the factors affecting industrial and/or institutional buyers is promotional and merchandising support.
- (4) The power of the supplier is greatest when the supplier can integrate forward.

174. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिष्ठान अनुत्तोलित है?

- (1) ऐसा प्रतिष्ठान जिसमें ऋण का उपयोग केवल इसकी परिसंपत्तियों को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है।
- (2) ऐसा प्रतिष्ठान जिसमें ऋण और इक्विटी दोनों का उपयोग इसकी परिसंपत्तियों को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है।
- (3) ऐसा प्रतिष्ठान जिसमें किसी भी ऋण का उपयोग नहीं किया जाता है और इसकी परिसंपत्तियों को वित्त पोषित करने के लिए केवल इक्विटी का उपयोग किया जाता है।
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

174. Which of the following is an unlevered firm?

- (1) A firm that uses debt only to finance its assets.
- (2) A firm that uses both debt and equity to finance its assets.
- (3) A firm that uses no debt and finances its assets entirely by equity.
- (4) None of the above

- (1) ईट बनाना
- (2) सिमेंट उत्पादन
- (3) रसायनिक विनिर्माण
- (4) जलयान-निर्माण

- (1) Brick making
- (2) Cement production
- (3) Chemical manufacturing
- (4) Ship - building

निम्नलिखित में से कौन-सा बिजनेस का कारण है?

- (1) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन
- (2) कर्मचारियों की लापरवाही
- (3) उपर्युक्त सभी

176. Which of the following is a Cause of Business Risk?

- (1) Natural Calamities
- (2) Change in Technology
- (3) Negligence of employees
- (4) All of the above

177. तलपट द्वारा निम्नलिखित में से किस त्रुटि का खुलासा होता है?

- (1) किसी प्रविष्टि का आंशिक लोप
- (2) सिद्धान्त की त्रुटि
- (3) लेन-देन की रिकार्डिंग का लोप
- (4) प्रतिपूरक त्रुटि

177. Which one of the following errors is disclosed by Trial Balance?

- (1) Partial omission of an entry
- (2) Error of principle
- (3) Omission of the recording of a transaction
- (4) Compensating error

- (1) फेयोल की तकनीक अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट हैं जबकि टेलर के सिद्धान्त अधिक सामान्य प्रकृति के और लचीले हैं।
- (2) टेलर के सिद्धान्त और तकनीक में कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर अधिक बल दिया गया है जबकि फेयोल के सिद्धान्त प्रबंधकीय दक्षता पर केन्द्रित हैं।
- (3) हेनरी फेयोल के सिद्धान्त और तकनीक में न्यूनतम स्तर से ऊपर की ओर दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया था जबकि एफ. डब्ल्यू. टेलर के सिद्धान्त शीर्ष से न्यूनतम स्तर तक गमन के सिद्धान्त पर आधारित हैं।
- (4) टेलर के सिद्धान्त सभी प्रकारात्मक क्षेत्रों में अधिक प्रासंगिक हैं जबकि फेयोल के सिद्धान्त और तकनीक केवल उत्पादन कार्यकलाप के संबंध में प्रासंगिक हैं।

- (1) Fayol's techniques are more specific whereas Taylor's principles are more general in nature and are flexible.
- (2) Taylor's principles and techniques are focused on workers' efficiency while Fayol's principles are focused on managerial efficiency.
- (3) Henri Fayol's principles and techniques were suggested with bottom upward approach whereas FW Taylor's principles are based on top downward approach.
- (4) Taylor's principles have wide relevance in all functional areas whereas Fayol's principles and techniques are relevant mainly with respect to production activities.

179. निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण के अनुसार समग्र पूँजीकरण को दर और ऋण लागत को दृष्टिगत रखकर के वित्तीय लेखांकन के लिए चिन्ता रहता है?

179. According to which approach, the overall capitalisation rate and the cost of debt remain constant for all degrees of financial leverage?

- (1) शुद्ध पूँजीकरण
- (2) निवल प्रचालनात्मक आय दृष्टिकोण
- (3) पारंपरिक दृष्टिकोण
- (4) निवल आय दृष्टिकोण

- (1) Pure Capitalization
- (2) Net Operating Income Approach
- (3) Traditional Approach
- (4) Net Income Approach

(1) मूल्यह्रास की शीघ्र जमा पद्धति का कम करने की प्रक्रिया मूल्यह्रास और मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए एक साथ एक समान प्रभार रखने के लिए अपनाई जाती है।

(2) लेखाओं में मूल्यह्रास का उपबंध करने के फलस्वरूप लाभार्जन के लिए उपलब्ध होने वाले धन की मात्रा घटती है।

(3) मूल्यह्रास एक अमोर्टाइज्ड व्यय है।

(4) मूल्यह्रास की सीधी रेखीय पद्धति एक साथ मूल्यह्रास और मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए एक समान प्रभार रखने के लिए अपनाई जाती है।

(1) Straight Line Method of Depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and Maintenance together.

(2) Providing depreciation in the accounts reduces the amount of profits available for dividend.

(3) Depreciation is an amortised expenditure.

(4) Straight Line Method of Depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and Repairs and Maintenance together.

181. निम्नलिखित में कौन-सा सिद्धान्त बीमा को शासित नहीं करता है?

(1) लाभ

181. Which of the following is not a principle governing insurance?

(1) Profit

(2) Indemnity

(3) कौजा प्रॉक्सिमा

(3) Causa Proxima

(4) अत्यधिक सद्भाव

(4) Utmost good faith

182. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (1) औपचारिक समूह केवल कमान समूह हो सकता है।
- (2) औपचारिक समूह केवल कार्य समूह हो सकता है।
- (3) समूहों से संगठन के भीतर वांछनीय अथवा अवांछनीय परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- (4) सभी प्रकार के संगठनों में समूह नहीं होते।

182. Which one is true ?

- (1) A formal group can be only a command group.
- (2) A formal group can be only a task group.
- (3) Groups can cause either desirable or undesirable consequences within the organization.
- (4) Groups do not exist in all kinds of organizations.

185. निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

- (1) विक्रय मूल्य में वृद्धि से लाभ मार्जिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) लाभ-मात्रा अनुपात लाभ और विक्री के बीच संबंध दर्शाता है।
- (3) सीमान्त लागत लेखांकन की तुलना में पूर्ण लागत लेखांकन में प्रत्येक मूल्य पर होता है।
- (4) सीमान्त लागत लेखांकन में अर्द्ध-परिवर्ती लागत को दो भागों में बांटा जाता है।

185. Which one is true ?

- (1) Increase in selling price will have no effect on margin of safety.
- (2) Profit - volume ratio indicates the relationship between profit and sales.
- (3) The valuation of stock is at a higher price in absorption costing as compared to marginal costing.
- (4) Semi-variable costs form a part of product cost in marginal costing.

183. लेखांकन पद्धति के संबंध में डी.बी.एम.एस. का उपयोग किसी अनुप्रयोग को नींव है और इससे डिजाइनर प्रोग्रामिंग के बहुत से अनुदेश तैयार कर पाता है।

183. In relation to 'Accounting System' using DBMS are the foundations of any application and allow the designer to create a set of programming instructions.

- (1) मॉड्यूल्स
- (2) विजार्ड्स
- (3) एक्सेस
- (4) मैक्रोज़

- (1) Modules
- (2) Wizards
- (3) ACCESS
- (4) Macros

186. निम्नलिखित में कौन सही है ?

- (1) सीजनल डेटिंग में एक क्रम के ग्राहकों को सीजन के पहले भाग में भुगतान करना होता है।
- (2) वित्तीय प्रबंधन का एक उद्देश्य प्राप्तियों में निवेश के आकार को बढ़ाना होता है।
- (3) किसी विनिर्माण क्रम के प्रचालन चक्र में प्राप्य

186. Which one is true ?

- (1) Seasonal dating requires a firm's customers to pay in the early part of the season.
- (2) One of the objectives of financial management is to increase the size of the investments in receivables.
- (3) Receivables represent a stage in the

184. चालू अनुपात 4.5 : 1 है और तरलता अनुपात 3 : 1 है।

184. The current ratio is 4.5 : 1 and liquid ratio

- (1) ₹ 2,75,000
- (2) ₹ 1,75,000
- (3) ₹ 2,50,000
- (4) ₹ 2,00,000

- (1) ₹ 2,75,000
- (2) ₹ 1,75,000
- (3) ₹ 2,50,000
- (4) ₹ 2,00,000

$$\frac{C.A.}{C.L.} = \frac{4.5}{1}$$

$$C.A. = 4.5 \times C.L.$$

$$\frac{L.A.}{C.L.} = \frac{3}{1}$$

$$L.A. = 3 \times C.L.$$

- (4) अन्य चीजों के समान रहने पर, प्राप्य विक्री की बढ़ोतरी में सहायता नहीं करते।

- (4) Receivables do not help growth of sales, other things remaining the same.

$$C.A. = 4.5$$

$$\frac{L.A.}{C.L.} = \frac{3}{1}$$

$$C.A. - L.A. = 3$$

- (a) विधिक व्यय
- (b) समापक का पारिश्रमिक
- (c) अधिमन्य और उपरि देनदार का बकाया
- (d) ऋणपत्र धारकों का बकाया जो चल प्रभार से प्रतिभूत हो।
- (e) ऋणपत्र धारकों का बकाया जो स्थिर प्रभार से प्रतिभूत हो।

- (1) (a), (b), (d), (e), (c)
- (2) (a), (b), (e), (d), (c)
- (3) (a), (b), (c), (d), (e)
- (4) (b), (a), (c), (e), (d)

188. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (1) संगठन की संरचना में उत्पाद के विभक्त होने के फलस्वरूप दो प्रत्युत्तरक निमित्त कार्यों के मध्य समन्वय में कमी आती है।
- (2) रणनीति में बदलाव के लिए उपस्थित प्रतिकूलता

following disbursements ?

- (a) Legal expenses
- (b) Liquidators' remuneration
- (c) Preferential and overriding creditors dues
- (d) Dues of debenture holders secured with floating charge
- (e) Dues of debenture holders secured with fixed charge

- (1) (a), (b), (d), (e), (c)
- (2) (a), (b), (e), (d), (c)
- (3) (a), (b), (c), (d), (e)
- (4) (b), (a), (c), (e), (d)

188. Which one is true ?

- (1) Organisation structure by product divisions reduces coordination between functions for rapid response.
- (2) A change in strategy requires the

अधिकार प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

- (2) डाटाबेस का नियंत्रण इस प्रयोजनार्थ स्थापित किसी पृथक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
- (3) डाटाबेस में पूर्व में बहुत सी अलग-अलग डाटा फाइलों में स्टोर की गई ऑकड़ों अभिलेख को समेकन किया जाता है।
- (4) डाटाबेस विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए समान डाटा को प्रदान करता है।

190. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को मोटे तौर पर किन-किन चरणों में विभक्त किया जा सकता है ?

- (1) 4
- (2) 5
- (3) 2
- (4) 3

191. संवाद में सूचना को बढ़ावा देकर और विभागीय अड़चनों को दूर कर संगठन की कार्य-कुशलता में अभिवृद्धि करने का प्रयास किया जाता

- (1) पार्श्विक
- (2) विकर्ण
- (3) अशाब्दिक
- (4) क्षैतिज

having the _____ use it.

- (2) Database is controlled by a separate authority established for the purpose.
- (3) Database consolidates data records formerly stored in many separate data files.
- (4) Database is not a common data source to various users.

190. As per 'The Companies Act, 2013', the whole process of formation of a public company can be broadly divided into _____ stages.

- (1) 4
- (2) 5
- (3) 2
- (4) 3

191. _____ communication attempts to increase the organisational efficiency by speeding up information and cutting across

- (1) Lateral
- (2) Diagonal
- (3) Non-verbal
- (4) Horizontal

(3) संरचना संगठन का चार्ट है जिसमें कार्य का विभाजन दर्शाया जाता है।

(4) प्रकार्यात्मक संरचना में विशेषज्ञता प्राप्त समूहों के साथ कार्यकारी को पहचान के कारण परिवर्तन दुष्कर हो जाता है।

(3) Structure is the organisation chart to show the division of task.

(4) In functional structure, employee identification with specialised groups makes change difficult.

- (1) कर्मचारियों का शोधन
- (2) भ्रम संगठनों का सुदृढ़ीकरण
- (3) व्यक्तिपरक कर्मचारियों के पहल में वृद्धि
- (4) कर्मचारियों की भौमी गति

- (1) Exploitation of workers
- (2) Strengthening of Trade unions
- (3) Increase of individual worker's initiative
- (4) Slowering-up of workers

193. नेतृत्व क किस मॉडल/सिद्धान्त के अनुसार किसी नेता से अपेक्षा की जाती है कि उसके नेतृत्व की शैली अधीनस्थ कर्मियों की परिपक्वता स्तर के अनुरूप हो जो कई चरणों में चलती है और इसका एक चक्र होता है ?

- (2) दूध-बैठक और जीर्णोद्धार आकाशमय गण्डाल

193. According to which model/theory of leadership a leader is supposed to match his leadership style with the maturity level of subordinates which moves in stages and has a cycle?

- #### (4) House's Path Goal Theory

- (4) हेरसे-बीकर्ड का स्थितिपरक मॉडल

- (4) Hersey - Blanchard Situational Model

- (1) साख-नीति नियन्त्रणन आक सौजन में साथ अवधि को कम करता है।
- (2) यदि साख शर्तों को '2/10, नेट 30' से '3/10, नेट 30' में बदला जाता है तो प्राप्य देनदारों में औसत निवेश के कम होने की सम्भावना होती है।
- (3) साख-नीति के मूल्यांकन में अपेक्षित प्रति एक आधारभूत खतरा है।
- (4) मोरगानिथि विनिमय में प्रत्येक संस्थान के व्यवसायी को रोकने वाली नीति करना है।

- (1) Seasonal dating of all the collection in credit netting is not off the season.
- (2) Credit terms changed from $2/10, \text{net } 30$ to $3/10, \text{net } 30$, the average investments in accounts receivable are likely to decrease.
- (3) Required return is a basic variable in the evaluation of a credit policy.
- (4) Seasonal dating aims at avoiding inventory carrying costs.

195. निम्नलिखित में से कौन-सा गलत है?

- (1) सामान्यतया जो बाह्य कारकों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, वे अपनी नौकरी से अपेक्षाकृत कम संतुष्ट हैं।
- (2) सामान्यतया, बाह्य कारकों पर अत्यधिक निर्भर रहने वाले व्यक्ति अपने कार्यस्थल से कम अनुपस्थित रहते हैं।

195. Which one is false?

- (1) Generally, who rate high in externality are less satisfied with their jobs.
- (2) Generally, individuals who rate high in externality have lower absenteeism rates.

- का नियंत्रित करत है, उन्हें "इन्टेल्ल" का संज्ञा दी गई है।

- (4) ऐसे व्यक्ति जिनकी मान्यता है कि उनका जीवन बाह्य कारकों से नियंत्रित हो रहा है, उन्हें "एक्सटर्नल्स" कहा गया है।

their destinies, have been labeled 'internals'.

- (4) Persons who see their lives as being controlled by outside forces have been called 'externals'.

किया जाता है ?

- (1) प्रतिष्ठान की तरलता की स्थिति
- (2) प्रतिष्ठान की ऋण सेवा क्षमता
- (3) प्रतिष्ठान की ऋण संदायगी क्षमता
- (4) उपर्युक्त सभी

- (1) Firm's liquidity position
- (2) Firm's debt servicing capacity
- (3) Firm's debt repaying capacity
- (4) All of the above

197. मान लीजिए : हस्तगत रोकड़ = ₹ 50,000, बैंक में जमा राशि = ₹ 50,000, विपणन योग्य प्रतिभूति = ₹ 1,50,000, देनदार = ₹ 2,50,000, अन्य चालू आस्तियाँ = ₹ 2,50,000, चालू देयताएँ = ₹ 2,50,000 हों तो निरपेक्ष तरलता अनुपात निम्नांकित में से क्या होगा ?

- (1) 2:5
- (2) 3:1
- (3) 2:1
- (4) 1:1

197. Given : Cash in hand = ₹ 50,000, Cash at bank = ₹ 50,000, Marketable securities = ₹ 1,50,000, Debtors = ₹ 2,50,000, other current assets = ₹ 2,50,000, Current Liabilities = ₹ 2,50,000. Absolute liquid ratio will be:

- (1) 2:5
- (2) 3:1
- (3) 2:1
- (4) 1:1

(1) किसी या अभिवृत्त का भावनात्मक संघटक किसी अभिवृत्ति का मत या मान्यता पक्ष है।

(2) अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक संघटक अभिवृत्ति का भावनात्मक संघटक से पक्ष होता है।

(3) राष्ट्रीय संस्कृति प्रथमिक मूल्यों और प्रथा से संदर्भित है। यह किसी देश विशेष का पता लगाता है।

(4) अभिवृत्तियाँ सकारात्मक मूल्यांकनकारी व्यक्तित्व हैं जो लक्ष्यों, व्यक्तियों अथवा कार्यक्रमों से संबंधित हैं।

(1) Affective component of an attitude is the opinion or belief segment of an attitude.

(2) Cognitive component of an attitude is the emotional or feeling segment of an attitude.

(3) National culture refers to primary values and practices that characterize a particular country.

(4) Attitudes are favourable evaluative statements concerning objects, people or events.

199. निम्नलिखित में से क्या उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें संगठन में अलग-अलग विभागों और लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं ?

199. Which of the following refers to the process wherein various tasks and activities are assigned to different departments and people in the organization ?

- (2) कार्य का चक्रानुक्रम
- (3) कार्य-विवरण
- (4) एकीकरण

- (2) Job Rotation
- (3) Job Description
- (4) Integration

200. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है ?

- (1) प्रबंधक स्वामियों (शेयरधारकों) के अधिकारी हैं और व्यवसाय में उनके निर्णय को केवल लाभ में अत्यधिक वृद्धि करने की इच्छा से शासित किए जाने की आवश्यकता है।
- (2) व्यवसाय की अभिनव प्रयोग संबंधी अभिमतता को यदि सामाजिक समस्याओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाए तो पारंपरिक व्यावसायिक संकल्पनाओं के अनुसार बहुत सी समस्याओं को लाभकारी रूप में हँडल किया जा सकता है।
- (3) व्यवसाय में सरकार द्वारा विनियमन से परिहार के लिए सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायी व्यवहार किया जाना चाहिए।
- (4) सामाजिक उत्तरदायित्व से व्यवसायियों द्वारा उन नीतियों का पालन करने के लिए जो सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में वांछनीय हैं, दायित्व का निर्वहन तात्पर्यित है।

- 0 0 0 -



200. Which one is false ?

- (1) Managers are the agents of owners (Shareholders) and their decisions in business need to be governed on the desire to maximise profits.
- (2) If the innovative ability of business can be turned to meet social problems, many problems can be handled profitably. This is the concept of traditional business.
- (3) Business should engage in socially responsible behaviour to regulate its conduct by government.
- (4) Social responsibility refers to the obligations of businessmen to follow those policies which are desirable in terms of the objectives of the society.

- 0 0 0 -